



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1937 (श10)

(सं0 पटना 819) पटना, वृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2015

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

29 मई 2015

सं० मं०मं०-01/आर०-28/2006/680—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :-

संशोधन

बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची के क्रमांक-02 संसदीय कार्य विभाग को आवंटित कार्यों की सूची के क्रमांक '14' के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक-'15' जोड़ा जाएगा :-

“15. बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी प्रशासनिक विषय”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 819-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>